



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 2009/माघ 22, 1930

No. 270]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2009/MAGHA 22, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2009

का.आ. 447 (अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गुवाहाटी स्थित गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उपाबंध में यथा वर्णित सेशन न्यायालय(यों) को उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए उक्त उपाबंध में उक्त न्यायालयों के सामने विनिर्दिष्ट क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए विशेष न्यायालय(यों) के रूप में पदाभिहित करती है।

[अधिसूचना सं. 1/2009/फा.सं. 6/3/2005-ई.एस.]

एस. जी. पी. वर्गीस, अवर सचिव

उपाबंध

क्र.सं.	राज्य	धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित सेशन न्यायालय	धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र।
---------	-------	---	---

1	2	3	4
1.	मणिपुर	जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, मणिपुर, पूर्व इंफाल।	इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व और उखरूल जिले।

1	2	3	4
		जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, मणिपुर, पश्चिम इंफाल।	थोबल, बिषनपुर, चूड़ाचांदपुर, चंदेल, सेनापति और तामेंलांग जिले।
2.	त्रिपुरा	जिला और सेशन न्यायाधीश का कार्यालय पश्चिम त्रिपुरा, अगरतला।	समस्त त्रिपुरा राज्य के भीतर।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2009

S.O. 447 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) and in consultation with the Chief Justice of the Guwahati High Court at Guwahati, the Central Government designates the Court (s) of Sessions, as mentioned in Annexure, as Special Court(s) for the area(s) specified in the said Annexure against the said Court, for trial of offence punishable under Section 4 of the said Act.

[Notification No. 1 of 2009/F. No. 6/3/2005-E.S.]

S. G. P. VERGHESE, Under Secy.

ANNEXURE				1	2	3	4
Sl. No.	State	Court of Session notified as Special Court under the Prevention of Money Laundering Act, 2002	Area specified for trial of offence punishable under Section 4 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002				
1.	Manipur	Court of the District and Sessions Judge,	District of Imphal West, Imphal East and Ukhrul.	2.	Tripura	Manipur East, Imphal. Court of the District and Sessions Judge, Manipur West, Imphal Court of the District and Sessions Judge, West Tripura, Agartala.	Districts of Thoubal Bishnupur, Chruachandpur, Chandel, Senapati and Tamenglong. Throughout the State of Tripura.